



CORDS CABLE INDUSTRIES LTD.

REGD. OFFICE : 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg,
Near Okhla Industrial Area Phase-III,
Old Ishwar Nagar, New Delhi - 110020
Tel : +91-11-40551200 ; Fax : +91-11-20887232
Website : www.cordscable.com ; Email : ccil@cordscable.com
CIN : L74999DL1991PLC046092

Date: 30.10.2024

Listing Department (Compliance Cell), National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051 Scrip Code: CORDSCABLE	Listing Department (Compliance Cell), Bombay Stock Exchange Ltd. Floor 25, PJ Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 Scrip Code: 532941
--	--

Sub : Newspaper Publication regarding Intimation of Board Meeting

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the newspapers advertisements published in the Financial Express and Jansatta dated October 30th, 2024 regarding intimation of 212th Board Meeting of the Company to consider and approve the Un-audited financial results for the 2nd Quarter/Half year ended on September 30th, 2024 and other items as per the agenda.

Kindly take the same on your record and acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours Faithfully,
FOR CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

For Cords Cable Industries Ltd.

Garima
Garima Pant
Company Secretary

**GARIMA
PANT**

Digitally signed by GARIMA PANT
DN: c=IN, o=Personal,
pseudonym=ghrqj5c8weaskb4x6y30mp2z1
d9lftw,
2.5.4.20=c3d2852435178904213dd613f774
f503cb19dee96d5d026d272bf1a0f20ea6f6,
postalCode=121004, st=Haryana,
serialNumber=cc784514f4def0fb787294c
0e355f5ce520415caaff7e96293651dad4e2
d180, cn=GARIMA PANT
Date: 2024.10.30 11:06:51 +05'30'

Works :

(UNIT I) : A-525, E-518, 519, 520, Industrial Area Chopanki, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7230003177
(UNIT II) : SP-239, 240, 241, Industrial Area Kaharani, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7230003176

CORDS® Cords Cable Industries Limited
 Registered Office: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020
 Tel: 011-40551200 * Fax: 011-20887232 * E-mail: ccli@cordscable.com
 website: www.cordscable.com * CIN: L74999DL1991PLC046092

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that 21st meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, November 11th, 2024 at 12:15 p.m. onwards to consider and approve, inter alia, the Un-audited Financial Results alongwith Limited Review Report by the statutory auditor for the 2nd Quarter/Half Year ended on September 30th, 2024 and other items as per agenda. The above information is also available on the website of the company viz. (www.cordscable.com) and the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed viz. (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com). In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already been closed for all the designated persons and their immediate relatives w.e.f October 01st, 2024 till 48 hours after the Un-audited Financial Results for the 2nd Quarter/ Half Year ended on September 30th, 2024 is made public.

By Order of Board of Directors
 For Cords Cable Industries Limited
 Sd/-
 Garima Pant
 Company Secretary

Place : New Delhi
 Date : October 29, 2024

COSMIC CRF LIMITED
 CIN:L27100WB2021PLC250447
 Registered Office:19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata - 700029
 email :cs@cosmiccrf.com, Phone : +91 33796 47499 website: www.cosmiccrf.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024 (₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated	
		Half year Ended			Year Ended	Half year Ended
		30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.09.2024 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	15,864.75	13,014.15	12,349.77	25,363.92	16939.65
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	1,616.71	797.10	773.30	1570.40	1644.85
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and/or Extra ordinary items)	1616.71	797.10	773.30	1570.40	2236.43
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (Exceptional and/or Extra ordinary items)	1235.46	596.03	679.46	1275.49	1850.35
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-	-	-	-	-
6	Paid-up Equity Share Capital	819.80	819.80	692.20	819.80	819.80
7	Earning Per Share Basic (in Rs.)	15.07	8.07	11.28	19.35	22.57
	Diluted (in Rs.)	15.07	8.07	11.28	19.35	22.57

Notes on Standalone Financials Results:

- The above results which are published in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on October 29, 2024. The Financial results have been prepared in accordance with the Accounting Standards ("AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of Companies (Accounts) Rules 2014 by the Ministry of Corporate Affairs and amendments thereof.
- As per Ministry of Corporate Affairs Notification dated February 16, 2015, Companies whose securities are listed on SME Exchange as referred to in Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 are exempted from the compulsory requirement of adoption of Ind AS.
- The group operates in one segment hence no separate segment reporting is required.
- Earning per share has been calculated on the weighted average of the share capital outstanding during the end of the half year i.e. 30th September or at the end of the year. Half Yearly EPS is not annualised.
- The legal issue of arbitration matter involving the Contingent Liability of Rs. 1,034.33 Lakhs is pending for adjudication with the Ex-Supreme Court Judge as the Sole Arbitrator and financial effect if any will be provided on settlement of the issue.
- The Company has revalued the Property, Plant & Equipment of the company during the year 2023-24 resulting in Revaluation Reserve of Rs. 4,473.95 Lakhs and corresponding increase in Property, Plant & Equipment. In view of the same incremental depreciation of Rs. 99.93 Lakhs has been adjusted against Revaluation Reserve and transfer to Retained Earnings.
- In view of the Resolution Plan submitted by the company as approved by the Hon'ble NCLT, Kolkata dated 12th March 2024, the company has paid the amount committed Rs. 2,876.01 lakhs along with its SPV M/s AVB Endeavors Private Limited and implemented the Resolution Plan successfully. The payment was made towards acquisition of shares of M/s N. S. Engineering Projects Pvt Ltd resulting it being subsidiary of the Company & payment of Rs. 1,438.69 lakhs was made as interest free loan.
- In regards to profit from Operation and Exceptional Items from the subsidiary company, the provision for Income Tax has been made under MAT on Profit from Operation during the period. By virtue of Order of the NCLT, waiver of Income Tax/MAT etc has been approved on any income arising out of write off/write back of liabilities or assets of the company on implementation of the Approved Resolution Plan.
- The consolidated financial results include the financial results of its Subsidiary M/s N. S. Engineering Projects Pvt. Ltd.
- Previous period figures are no applicable since the consolidation is applicable for the first time to the company from the current reporting period.

For and on behalf of the Board of directors
 Cosmic CRF Limited
 Aditya Vikram Birla
 Managing Director
 DIN:06613927

Place : Kolkata
 Date : 29th October, 2024

KAMCO
KERALA AGRO MACHINERY CORPORATION LTD
 (A Govt. of Kerala undertaking) Regd. Office: Athani, Ernakulam-683 585, Kerala
 Tele. No (0484) -2474301 (5 lines), E-mail: materials@kamcoindia.com

E-TENDER NOTICE

- KAMCO/MTLS/EOI/24-25/03 A
 DTD: 29.10.2024
 Expression of Interest (EOI) for the Running of Restaurant/Canteen Management
- KAMCO/MTLS/EOI/24-25/07
 DTD: 29.10.2024
 Expression of Interest (Global EOI) is invited from interested parties for Financial Investment and Technological Collaboration/Support in the Development of Innovative /Advanced Agricultural Machinery.

Visit our website www.kamcoindia.com or contact Materials Dept. Apply tenders: Sd/-
www.etenders.kerala.gov.in Managing Director
 30/10/2024

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
 (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

NOTICE INVITING E-TENDER

CONCOR invites E-Tender in Two Packet System of tendering for the following work:-
 Tender No. CONEPIA/IV Slick Line Shad/ICD Dadr/E-77370/2024-25

Name of Work: Augmentation work of sick line shed, which includes the PEB Shed, 2 Nos Electric Overhead Traversing (EOT) crane, Building work, track work, 1 Nos level crossing, cement concrete pavement work, Solar Plant (Capacity 150 KWp) and other ancillary work at ICD/DADR/

Estimated Cost: Rs. 1691.59 Lakhs (including GST)

Completion Period: 15 months

Earnest Money Deposit: Rs. 9,95,800/- (Rs. Nine Lakhs Ninety Five Thousand Eight Hundred only)

Cost of Tender Document (Non-refundable): NIL

Tender Processing Fee (Non-refundable): Rs. 3540/- (inclusive all taxes & duties through e-payment)

Date of sale of Tender (online): 30.10.2024 to 20.11.2024 upto 15:00hrs

Date & Time of submission of Tender: 21.11.2024 up to 17:00 hrs.

Date & Time of Opening of Tender: 22.11.2024 at 15:00 hrs.

For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc, please refer to detailed tender notice available on website www.concorindia.com, but the complete tender document can be downloaded from website www.tendersindia.com only. Further, Corrigendum / Addendum to this Tender, if any, will be published on website www.concorindia.com, www.tendersindia.com and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same.

ED / Projects | Phone No: 011-41222500

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, BENCH, AT AHMEDABAD COMPANY SCHEME APPLICATION NO. 30 OF 2024.
 In the matter of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) AND

In the matter of Sections 230 to 232 other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under as in force from time to time; AND

In the matter of Scheme of Amalgamation of THAKKARS INVESTMENT PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 1 and EDWELL PARK PROPERTIES & NETWORKS PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 2 and AJITESH ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 3 and KARTIK ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 4 and BHARGAVA ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 5 and NIRMIT ESTATE PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 6 / Transferee Company No. 1 and ESSAR STEEL METAL TRADING LIMITED, the Transferor Company No. 7 and ESSAR ADVISORY SERVICES LIMITED, the Transferor Company No. 8 and ULTRA GREEN GAS LIMITED, the Transferor Company No. 9 and ESSAR EXPLORATION & PRODUCTION INDIA LIMITED, the Transferor Company No. 10 and GIRISHAN INVESTMENT PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 11 and ABHINAND VENTURES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 12 and their respective Shareholders ("Scheme").

ESSAR STEEL METAL TRADING LIMITED
 Corporate Identification No. (CIN): U27100GJ2005PLC046272.
 A Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, and having its registered office at 601, 6th floor, Indira Complex Near Namrata Society, Manjalpur, Vadodara, Gujarat 390004; E-mail: holdingcossec@essar.com

ESSAR ADVISORY SERVICES LIMITED
 Corporate Identification No. (CIN): U24119GJ2007PLC049785.
 A Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, and having its registered office at 601, 6th floor, Indira Complex Near Namrata Society, Manjalpur, Vadodara, Gujarat 390004; E-mail: holdingcossec@essar.com

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDER AND UNSECURED CREDITOR

Notice is hereby given that by an order dated the 24th October, 2024, the Ahmedabad Bench of the National Company Law Tribunal has directed a Meeting to be held of Equity Shareholder and Unsecured Creditor of Applicant Company No. 1 / Transferor Company No. 7 for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Amalgamation of THAKKARS INVESTMENT PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 1 and EDWELL PARK PROPERTIES & NETWORKS PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 2 and AJITESH ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 3 and KARTIK ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 4 and BHARGAVA ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 5 and NIRMIT ESTATE PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 6 / Transferee Company No. 1 and ESSAR STEEL METAL TRADING LIMITED, the Transferor Company No. 7 and ESSAR ADVISORY SERVICES LIMITED, the Transferor Company No. 8 and ULTRA GREEN GAS LIMITED, the Transferor Company No. 9 and ESSAR EXPLORATION & PRODUCTION INDIA LIMITED, the Transferor Company No. 10 and GIRISHAN INVESTMENT PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 11 and ABHINAND VENTURES PRIVATE LIMITED, the Transferee Company No. 2 and their respective Shareholders ("Scheme"), under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of the Equity Shareholders of the Applicant Company No. 1 / Transferor Company No. 7 and meeting of the Unsecured Creditors of the Applicant Company No. 1 / Transferor Company No. 7 will be held at 601, 6th floor, Indira Complex Near Namrata Society, Manjalpur, Vadodara, Gujarat 390004 on Friday the 6th December, 2024 at 12.00 Noon and 1.00 P.M. respectively, at which time and place the said Equity Shareholders and Unsecured Creditors are requested to attend. Persons entitled to attend and vote at the Meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Companies not later than 48 hours before the meeting. Forms of proxy can be obtained at the registered office of the Applicant Company No.1/Transferor Company No. 7.

Copies of the said Amalgamation Scheme, and of the statement under Section 230 can be obtained free of charge at the Registered Office of the Applicant Company No.1/Transferor Company No. 7.

Mr. Monaal J. Davawala is the appointed Chairperson of the said meeting of Equity Shareholder meeting of Applicant Company No. 1/ Transferor Company No. 7 and meeting of Unsecured Creditors of Applicant Company No. 1/ Transferor Company No. 7. Mr. Bharat Prajapat, Practicing Company Secretary shall be the Scrutiniser for the said meeting of Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Applicant Company No. 1 / Transferor Company No. 7. The above-mentioned Scheme of Amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Dated: 29.10.2024

Sd/-
 Mr. Monaal J. Davawala
 Chairperson

SYNISE E-Auction
 (Buying and Selling)

NMDC LIMITED, PANNA

Sale of old and used vehicle, crane, dumper, HEM engine, battery, MS scrap, tyre, motors, e-waste, electrical items etc

Online Auction
 20th & 21st November 2024
 Inspection : 31.10.24 to 15.11.24

Contact
 Hemchand - 9835909933
 Synise Technologies Ltd
 Visit us on- www.synise.com

1800 425 1199
 1800 420 1199
 +91 484 2630994/5 (NRI)
 www.federalbank.co.in
 email: secretarial@federalbank.co.in
 CIN: L65191KL1931PLC000368

RP - Sanjiv Goenka Group
 Growing Legacies

Firstsource Solutions Limited

EXTRACT OF THE CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(₹ in millions, except per share data and per equity data)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Six months ended			Year ended
		September 30, 2024	June 30, 2024	September 30, 2023	September 30, 2024	September 30, 2023	March 31, 2024	
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income	19,226.55	17,929.35	15,569.14	37,155.90	30,878.57	63,730.89	
2	Net Profit / (Loss) for the period/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,710.28	1,672.56	1,543.03	3,382.84	3,095.95	6,296.75	
3	Net Profit / (Loss) for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,710.28	1,672.56	1,543.03	3,382.84	3,095.95	6,296.75	
4	Net Profit / (Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,382.11	1,352.49	1,265.09	2,734.60	2,524.94	5,147.25	
5	Total Comprehensive Income for the period/year	356.64	1,436.31	1,720.80	1,792.95	3,041.95	5,651.67	
6	Paid up equity share capital	6,969.91	6,969.91	6,969.91	6,969.91	6,969.91	6,969.91	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet						30,034.12	
8	Earnings Per Share (of ₹10 /- each)							
a.	Basic:	2.01	1.97	1.85	3.97	3.70	7.52	
b.	Diluted:	1.96	1.92	1.80	3.88	3.60	7.34	

Notes:

- Additional Information on standalone financial results (Audited) is as follows :

Particulars	Quarter ended			Six months ended		
	September 30, 2024	June 30, 2024	September 30, 2023	September 30, 2024	September 30, 2023	March 31, 2024
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Total income	5,503.89	5,232.81	3,735.87	10,736.70	7,179.30	16,377.31
Net profit before taxation	1,123.00	1,180.40	847.56	2,303.40	1,595.38	3,799.00
Net profit after taxation	918.60	948.52	720.91	1,867.12	1,369.67	3,196.99
- The Company through its wholly owned subsidiary Firstsource Solutions UK Limited on September 23, 2024, has acquired 100% equity interest and control of the businesses of Ascensos Limited ("Ascensos"), and its subsidiaries, headquartered at UK for a purchase consideration not to exceed GBP 42 mn (as per Share Purchase Agreement), including contingent consideration of GBP 9.45 mn payable over the next two years. Ascensos and its subsidiaries render BPM services for the retail, consumer and e-commerce verticals. Of the purchase consideration paid, ₹ 560.84 has been allocated to the fair value of identified net assets and ₹ 3,541.82 has been allocated to goodwill on a provisional basis, pending conclusion of the purchase price allocation exercise. Adjustments, if any, will be carried out during the measurement period, which shall not exceed one year from the acquisition date.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the period ended September 30, 2024 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the period ended September 30, 2024 are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company website (www.firstsource.com).

By order of the board
 For Firstsource Solutions Limited

Ritesh Mohan Idnani
 Managing Director and CEO

Place: Mumbai, India
 Date: October 28, 2024

CIN: L64202MH2001PLC134147
 Registered Office: 5th Floor, Paradigm 'B' wing, Mindspace, Link Road, Malad (West), Mumbai-400 064
 Tel: + 91 22 66660888, Web: www.firstsource.com, Email: complianceofficer@firstsource.com

NANDANI CREATION LIMITED
 Regd. Office: G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam, Jaipur-302006
 Phone: 0141-4037596, CIN: L18101RJ2012PLC037976
 Web-site: www.nandanicreation.com, e-mail: cs@jaipurkurti.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024

(Figures in Lacs except EPS)

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE RESULTS			CONSOLIDATED RESULTS		
		QUARTER ENDED			HALF YEAR ENDED		
		30.09.2024 (UNAUDITED)	30.06.2024 (UNAUDITED)	30.09.2023 (UNAUDITED)	30.09.2024 (UNAUDITED)	30.09.2023 (UNAUDITED)	31.03.2024 (AUDITED)
1.	Total Income from Operations	1867.67	1821.57	717.92	3689.24	1462.88	4423.25
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	200.07	179.49	(198.15)	379.56	(302.75)	54.94
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	200.07	179.49	(198.15)	379.56	(302.75)	54.94
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	135.72	133.97	(145.13)	269.69	(221.29)	49.22
5.	Total Comprehensive Income for the period	136.23	135.31	(144.58)	271.54	(220.73)	50.98
6.	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs. 10 each)	1726.16	1193.40	1143.40	1726.16	1143.40	1148.40
7.	Earnings per Share (Face Value of Rs. 10/- each) Basic & Diluted (not annualized for quarters)	0.88	1.16	(1.27)	2.00	(1.93)	0.45

Sr. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED			HALF YEAR ENDED		
		30.09.2024 (UNAUDITED)	30.06.2024 (UNAUDITED)	30.09.2023 (UNAUDITED)	30.09.2024 (UNAUDITED)	30.09.2023 (UNAUDITED)	31.03.2024 (AUDITED)
		(UNAUDITED)	(UNAUDITED)	(UNAUDITED)	(UNAUDITED)	(UNAUDITED)	(AUDITED)
1.	Total Income from Operations	1871.23	1832.81	965.36	3704.04	1743.06	4585.06
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	188.48	114.45	(174.54)	236.41	(264.98)	54.60
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	188.48	114.45	(174.54)	236.41	(264.98)	54.60
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	121.96	114.45	(174.54)	236.41	(264.98)	54.60
5.	Total Comprehensive Income for the period	122.49	115.83	(173.72)	238.32	(263.80)	57.44
6.	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs. 10 each)	1726.16	1193.40	1143.40	1726.16	1143.40	1148.40
7.	Earnings per Share (Face Value of Rs. 10/- each) Basic & Diluted (not annualized for quarters)	0.79	0.99	(1.66)	1.75	(2.53)	0.50

NOTES:

A) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 28th October, 2024 and have been subject to Limited review by the Statutory Auditors of the Company. The Statutory Auditors have expressed an unmodified review opinion on these results. B) The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter & Half year ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full Format of the statement of Standalone Financial Results are available on the Company's website (www.nandanicreation.com) and on the website of the National Stock Exchange of India limited (www.nseindia.com).

For NANDANI CREATION LIMITED
 Sd/-
 ANU MUNDHRA
 CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
 DIN: 05202504

Date: 28.10.2024
 Place: Jaipur

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (₹ in Lakhs)

Particulars	Standalone			Consolidated			
	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	
	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	
1	Total income from operations	754,123	618,570	2,526,753	801,529	654,820	2,678,195
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	140,701	128,055	497,838	147,305	134,271	526,100
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	140,701	128,055	497,838	147,305	134,271	526,100
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	105,669	95,382	372,060	109,625	99,410	388,043
5	Paid-up Equity Share Capital (Face value ₹ 2/- per Equity Share)	49,045	47,032	48,707	49,045	47,032	48,707
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of Previous year)	2,860,234	2,107,799	2,860,234	2,961,328	2,169,416	2,961,328
7	Earnings Per Share (EPS) (in ₹) (for continuing and discontinuing operations before and after extra ordinary items) (of ₹ 2/- each):						
	Basic	4.31*	4.17*	16.07	4.48*	4.35*	16.76
	Diluted	4.27*	4.12*	15.87	4.43*	4.29*	16.55
8	Securities Premium Account	1,035,147	916,648	1,021,314			
9	Net worth	3,110,820	2,603,207	2,908,941			
10	Outstanding Debt	2,374,863	1,918,084	1,802,641			
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL			
12	De						

CORDS® Cords Cable Industries Limited
 Registered Office: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020
 Tel: 011-40551200 * Fax: 011-20887232 * E-mail: cci@cordscable.com
 website: www.cordscable.com * CIN: L74999DL1991PLC046092

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that 212th meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, November 11th, 2024 at 12:15 p.m. onwards to consider and approve, inter alia, the Un-audited Financial Results alongwith Limited Review Report by the statutory auditor for the 2nd Quarter/Half Year ended on September 30th, 2024 and other items as per agenda. The above information is also available on the website of the company viz. (www.cordscable.com) and the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed viz. (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com). In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already been closed for all the designated persons and their immediate relatives w.e.f October 01st, 2024 till 48 hours after the Un-audited Financial Results for the 2nd Quarter/ Half Year ended on September 30th, 2024 is made public.

By Order of Board of Directors
 For Cords Cable Industries Limited
 Sd/-
 Garima Pant
 Company Secretary

Place : New Delhi
 Date : October 29, 2024

COSMIC CRF LIMITED
 CIN:L27100WB2012PLC250447
 Registered Office:19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata - 700029
 email:cs@cosmiccrf.com, Phone +91 33796 47499 website: www.cosmiccrf.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024 (₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated	
		Half year Ended			Year Ended	Half year Ended
		30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.09.2024 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	15,864.75	13,014.15	12,349.77	25,363.92	16939.65
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	1,616.71	797.10	773.30	1570.40	1644.85
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and/or Extra ordinary items)	1616.71	797.10	773.30	1570.40	2236.43
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (Exceptional and/or Extra ordinary items)	1235.46	596.03	679.46	1275.49	1850.35
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-	-	-	-	-
6	Paid-up Equity Share Capital	819.80	819.80	692.20	819.80	819.80
7	Earning Per Share Basic (in Rs.)	15.07	8.07	11.28	19.35	22.57
	Diluted (in Rs.)	15.07	8.07	11.28	19.35	22.57

Notes on Standalone Financials Results:

- The above results which are published in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on October 29, 2024. The Financial results have been prepared in accordance with the Accounting Standards ("AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of Companies (Accounts) Rules 2014 by the Ministry of Corporate Affairs and amendments thereof.
- As per Ministry of Corporate Affairs Notification dated February 16, 2015, Companies whose securities are listed on SME Exchange as referred to in Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 are exempted from the compulsory requirement of adoption of Ind AS.
- The group operates in one segment hence no separate segment reporting is required.
- Earning per share have been calculated on the weighted average of the share capital outstanding during the end of the half year i.e. 30th September or at the end of the year. Half Yearly EPS is not annualised.
- The legal issue of arbitration matter involving the Contingent Liability of Rs. 1,034.33 Lakhs is pending for adjudication with the Ex-Supreme Court Judge as the Sole Arbitrator and financial effect if any will be provided on settlement of the issue.
- The Company has revalued the Property, Plant & Equipment of the company during the year 2023-24 resulting in Revaluation Reserve of Rs. 4,473.95 Lakhs and corresponding increase in Property, Plant & Equipment. In view of the same incremental depreciation of Rs. 99.93 Lakhs has been adjusted against Revaluation Reserve and transfer to Retained Earnings.
- In view of the Resolution Plan submitted by the company as approved by the Hon'ble NCLT, Kolkata dated 12th March 2024, the company has paid the amount committed Rs.2,876.01 lakhs along with its SPV M/s AVB Endeavors Private Limited and implemented the Resolution Plan successfully. The payment was made towards acquisition of shares of M/s N. S. Engineering Projects Pvt Ltd resulting it being subsidiary of the Company & payment of Rs.1,438.69 lakhs was made as interest free loan.
- In regards to profit from Operation and Exceptional Items from the subsidiary company, the provision for Income Tax has been made under MAT on Profit from Operation during the period. By virtue of Order of the NCLT, waiver of Income Tax/MAT etc has been approved on any income arising out of write off/write back of liabilities or assets of the company on implementation of the Approved Resolution Plan.
- The consolidated financial results include the financial results of its Subsidiary M/s N. S. Engineering Projects Pvt. Ltd.
- Previous period figures are no applicable since the consolidation is applicable for the first time to the company from the current reporting period.

For and on behalf of the Board of directors
 Cosmic CRF Limited
 Aditya Vikram Birla
 Managing Director
 DIN:06613927

Place : Kolkata
 Date : 29th October, 2024

KERALA AGRO MACHINERY CORPORATION LTD
 (A Govt. of Kerala undertaking) Regd. Office: Athani, Ernakulam-683 585, Kerala
 Tele. No (0484) -2474301 (5 lines), E-mail:materials@kamcoindia.com

E-TENDER NOTICE

- KAMCO/MTLS/EOI/24-25/03 A DTD:29.10.2024 Expression of Interest (EOI) for the Running of Restaurant/Canteen Management
- KAMCO/MTLS/EOI/24-25/07 DTD:29.10.2024 Expression of Interest (Global EOI) is invited from interested parties for Financial Investment and Technological Collaboration/Support in the Development of Innovative /Advanced Agricultural Machinery.

Visit our website www.kamcoindia.com or contact Materials Dept. Apply tenders: Sd/-
www.etenders.kerala.gov.in Managing Director
 30/10/2024

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
 (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

NOTICE INVITING E-TENDER

CONCOR invites E-Tender in Two Packet System of tendering for the following work:-
 Tender No. CONEPIA/IV Sikk Line Shad/ICD Dadr/E-77370/2024-25

Name of Work: Augmentation work of sick line shed, which includes the PEB Shed, 2 Nos Electric Overhead Traversing (EOT) crane, Building work, track work, 1 Nos level crossing, cement concrete pavement work, Solar Plant (Capacity 150 KWp) and other ancillary work at ICD/DADR/

Estimated Cost: Rs. 1691.59 Lakhs (including GST)

Completion Period: 15 months

Earnest Money Deposit: Rs. 9,95,800/- (Rs. Nine Lakhs Ninety Five Thousand Eight Hundred only)

Cost of Tender Document (Non-refundable): NIL

Tender Processing Fee (Non-refundable): Rs. 3540/- (inclusive all taxes & duties through e-payment)

Date of sale of Tender (online): 30.10.2024 to 20.11.2024 upto 1500hrs

Date & Time of Submission of Tender: 21.11.2024 up to 17:00 hrs.

Date & Time of Opening of Tender: 22.11.2024 at 15:00 hrs.

For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc, please refer to detailed tender notice available on website www.concorindia.com, but the complete tender document can be downloaded from website www.tendersindia.com only. Further, Corrigendum / Addendum to this Tender, if any, will be published on website www.concorindia.com, www.tendersindia.com and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same.

ED / Projects | Phone No: 011-41222500

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, BENCH, AT AHMEDABAD COMPANY SCHEME APPLICATION NO. 30 OF 2024.
 In the matter of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) AND

In the matter of Sections 230 to 232 other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under as in force from time to time; AND

In the matter of Scheme of Amalgamation of THAKKARS INVESTMENT PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 1 and EDWELL PARK PROPERTIES & NETWORKS PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 2 and AJITESH ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 3 and KARTIK ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 4 and BHARGAVA ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 5 and NIRMIT ESTATE PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 6 / Transferee Company No. 1 and ESSAR STEEL METAL TRADING LIMITED, the Transferor Company No. 7 and ESSAR ADVISORY SERVICES LIMITED, the Transferor Company No. 8 and ULTRA GREEN GAS LIMITED, the Transferor Company No. 9 and ESSAR EXPLORATION & PRODUCTION INDIA LIMITED, the Transferor Company No. 10 and GIRISHAN INVESTMENT PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 11 and ABHINAND VENTURES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 12 and their respective Shareholders ("Scheme").

ESSAR STEEL METAL TRADING LIMITED
 Corporate Identification No. (CIN): U27100GJ2005PLC046272;
 A Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, and having its registered office at 601, 6th floor, Indra Complex Near Namrata Society, Manjalpur, Vadodara, Gujarat 390004; E-mail id: holdingcosec@essar.com

ESSAR ADVISORY SERVICES LIMITED
 Corporate Identification No. (CIN): U24119GJ2007PLC049785;
 A Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, and having its registered office at 601, 6th floor, Indra Complex Near Namrata Society, Manjalpur, Vadodara, Gujarat 390004; E-mail id: holdingcosec@essar.com

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDER AND UNSECURED CREDITOR

Notice is hereby given that by an order dated the 24th October, 2024, the Ahmedabad Bench of the National Company Law Tribunal has directed a Meeting to be held of Equity Shareholder and Unsecured Creditor of Applicant Company No. 1 / Transferor Company No. 7 for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Amalgamation of THAKKARS INVESTMENT PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 1 and EDWELL PARK PROPERTIES & NETWORKS PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 2 and AJITESH ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 3 and KARTIK ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 4 and BHARGAVA ESTATES PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 5 and NIRMIT ESTATE PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 6 / Transferee Company No. 1 and ESSAR STEEL METAL TRADING LIMITED, the Transferor Company No. 7 and ESSAR ADVISORY SERVICES LIMITED, the Transferor Company No. 8 and ULTRA GREEN GAS LIMITED, the Transferor Company No. 9 and ESSAR EXPLORATION & PRODUCTION INDIA LIMITED, the Transferor Company No. 10 and GIRISHAN INVESTMENT PRIVATE LIMITED, the Transferor Company No. 11 and ABHINAND VENTURES PRIVATE LIMITED, the Transferee Company No. 2 and their respective Shareholders ("Scheme"), under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of the Equity Shareholders of the Applicant Company No. 1 / Transferor Company No. 7 and meeting of the Unsecured Creditors of the Applicant Company No. 1 / Transferor Company No. 7 will be held at 601, 6th floor, Indra Complex Near Namrata Society, Manjalpur, Vadodara, Gujarat 390004 on Friday the 6th December, 2024 at 12.00 Noon and 1.00 P.M respectively, at which time and place the said Equity Shareholders and Unsecured Creditors are requested to attend. Persons entitled to attend and vote at the Meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Companies not later than 48 hours before the meeting. Forms of proxy can be obtained at the registered office of the Applicant Company No.1/Transferor Company No. 7.

Copies of the said Amalgamation Scheme, and of the statement under Section 230 can be obtained free of charge at the Registered Office of the Applicant Company No.1/Transferor Company No. 7.

Mr. Monaal J. Davawala is the appointed Chairperson of the said meeting of Equity Shareholder meeting of Applicant Company No. 1/ Transferor Company No. 7 and meeting of Unsecured Creditors of Applicant Company No. 1/ Transferor Company No. 7. Mr. Bharat Prajapat, Practicing Company Secretary shall be the Scrutiniser for the said meeting of Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Applicant Company No. 1 / Transferor Company No. 7. The above-mentioned Scheme of Amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Dated: 29.10.2024

Sd/-
 Mr. Monaal J. Davawala
 Chairperson

SYNISE E-Auction
 (Sourcing and Distribution)

NMDC LIMITED, PANNA

Sale of old and used vehicle, crane, dumper, HEM engine, battery, MS scrap, tyre, motors, e-waste, electrical items etc

Online Auction
 20th & 21st November 2024
 Inspection : 31.10.24 to 15.11.24

Contact
 Hemchand - 9835909933
 Synise Technologies Ltd
 Visit us on- www.synise.com

1800 425 1199
 1800 420 1199
 +91 484 2630994/5 (NRI)
 www.federalbank.co.in
 email: secretarial@federalbank.co.in
 CIN: L65191KL1931PLC000368

RP - Sanjiv Goenka Group
 Growing Legacies

Firstsource Solutions Limited

EXTRACT OF THE CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(₹ in millions, except per share data and per equity data)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Six months ended			Year ended
		September 30, 2024	June 30, 2024	September 30, 2023	September 30, 2024	September 30, 2023	March 31, 2024	
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income	19,226.55	17,929.35	15,569.14	37,155.90	30,878.57	63,730.89	
2	Net Profit / (Loss) for the period/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,710.28	1,672.56	1,543.03	3,382.84	3,095.95	6,296.75	
3	Net Profit / (Loss) for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,710.28	1,672.56	1,543.03	3,382.84	3,095.95	6,296.75	
4	Net Profit / (Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,382.11	1,352.49	1,265.09	2,734.60	2,524.94	5,147.25	
5	Total Comprehensive Income for the period/year	356.64	1,436.31	1,720.80	1,792.95	3,041.95	5,651.67	
6	Paid up equity share capital	6,969.91	6,969.91	6,969.91	6,969.91	6,969.91	6,969.91	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet						30,034.12	
8	Earnings Per Share (of ₹10 /- each)							
	a. Basic:	2.01	1.97	1.85	3.97	3.70	7.52	
	b. Diluted:	1.96	1.92	1.80	3.88	3.60	7.34	

Notes:

- Additional Information on standalone financial results (Audited) is as follows :

Particulars	Quarter ended			Six months ended		
	September 30, 2024	June 30, 2024	September 30, 2023	September 30, 2024	September 30, 2023	March 31, 2024
Total income	5,503.89	5,232.81	3,735.87	10,736.70	7,179.30	16,377.31
Net profit before taxation	1,123.00	1,180.40	847.56	2,303.40	1,595.38	3,799.00
Net profit after taxation	918.60	948.52	720.91	1,867.12	1,369.67	3,196.99
- The Company through its wholly owned subsidiary Firstsource Solutions UK Limited on September 23, 2024, has acquired 100% equity interest and control of the businesses of Ascensos Limited ("Ascensos"), and its subsidiaries, headquartered at UK for a purchase consideration not to exceed GBP 42 mn (as per Share Purchase Agreement), including contingent consideration of GBP 9.45 mn payable over the next two years. Ascensos and its subsidiaries render BPM services for the retail, consumer and e-commerce verticals. Of the purchase consideration paid, ₹ 560.84 has been allocated to the fair value of identified net assets and ₹ 3,541.82 has been allocated to goodwill on a provisional basis, pending conclusion of the purchase price allocation exercise. Adjustments, if any, will be carried out during the measurement period, which shall not exceed one year from the acquisition date.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the period ended September 30, 2024 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the period ended September 30, 2024 are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company website (www.firstsource.com).

By order of the board
 For Firstsource Solutions Limited

Ritesh Mohan Idnani
 Managing Director and CEO

Place: Mumbai, India
 Date: October 28, 2024

CIN: L64202MH2001PLC134147
 Registered Office: 5th Floor, Paradigm 'B' wing, Mindspace, Link Road, Malad (West), Mumbai-400 064
 Tel: + 91 22 66660888, Web: www.firstsource.com, Email: complianceofficer@firstsource.com

NANDANI CREATION LIMITED
 Regd. Office: G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam, Jaipur-302006
 Phone: 0141-4037596, CIN: L18101RJ2012PLC037976
 Web-site: www.nandanicreation.com, e-mail: cs@jaipurkurti.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024

(Figures in Lacs except EPS)

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE RESULTS			CONSOLIDATED RESULTS		
		QUARTER ENDED			HALF YEAR ENDED		
		30.09.2024 (UNAUDITED)	30.06.2024 (UNAUDITED)	30.09.2023 (UNAUDITED)	30.09.2024 (UNAUDITED)	30.09.2023 (UNAUDITED)	31.03.2024 (AUDITED)
1.	Total Income from Operations	1867.67	1821.57	717.92	3689.24	1462.88	4423.25
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	200.07	179.49	(198.15)	379.56	(302.75)	54.94
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	200.07	179.49	(198.15)	379.56	(302.75)	54.94
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	135.72	133.97	(145.13)	269.69	(221.29)	49.22
5.	Total Comprehensive Income for the period	136.23	135.31	(144.58)	271.54	(220.73)	50.98
6.	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs. 10 each)	1726.16	1193.40	1143.40	1726.16	1143.40	1148.40
7.	Earnings per Share (Face Value of Rs. 10/- each) Basic & Diluted (not annualized for quarters)	0.88	1.16	(1.27)	2.00	(1.93)	0.45

NOTES:

A) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 28th October, 2024 and have been subject to Limited review by the Statutory Auditors of the Company. The Statutory Auditors have expressed an unmodified review opinion on these results. B) The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter & Half year ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full Format of the statement of Standalone Financial Results are available on the Company's website (www.nandanicreation.com) and on the website of the National Stock Exchange of India limited (www.nseindia.com).

For NANDANI CREATION LIMITED
 Sd/-
 ANU MUNDHRA
 CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
 DIN: 05202504

Date: 28.10.2024
 Place: Jaipur

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (₹ in Lakhs)

Particulars	Standalone			Consolidated			
	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	
	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	
1	Total income from operations	754,123	618,570	2,526,753	801,529	654,820	2,678,195
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	140,701	128,055	497,838	147,305	134,271	526,100
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	140,701	128,055	497,838	147,305	134,271	526,100
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	105,669	95,382	372,060	109,625	99,410	388,043
5	Paid-up Equity Share Capital (Face value ₹ 2/- per Equity Share)	49,045	47,032	48,707	49,045	47,032	48,707
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of Previous year)	2,860,234	2,107,799	2,860,234	2,961,328	2,169,416	2,961,328
7	Earnings Per Share (EPS) (in ₹) (for continuing and discontinuing operations before and after extra ordinary items) (of ₹ 2/- each):						
	Basic	4.31*	4.17*	16.07	4.48*	4.35*	16.76
	Diluted	4.27*	4.12*	15.87	4.43*	4.29*	16.55
8	Securities Premium Account	1,035,147	916,648	1,021,314			
9	Net worth	3,110,820	2,603,207	2,908,941			
10	Outstanding Debt	2,374,863	1,918,084	1,802,641			
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL			
12	Debt Equity Ratio	0.75	0.74	0.62			
13	Capital Redemption Reserve	NIL	NIL	NIL			
14	Debtenture Redemption Reserve	NIL	NIL	NIL			
15	Capital Adequacy Ratio (%)	15.20	15.50	16.13			
16	NPA Ratio						
	a) Gross NPA	488,449	443,605	452,887			
	b) Net NPA	132,229	122,981	125,533			
	c) % of Gross NPA	2.09	2.26	2.13			
	d) % of Net NPA	0.57	0.64	0.60			
17	Return on Assets (%)	0.32*	0.34*	1.32			

* Not Annualised

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on Bank's website at www.federalbank.co.in. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges (BSE and NSE) and can be accessed on the URL www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Mumbai
 October 28, 2024

Krishnan Venkat Subramanian
 MANAGING DIRECTOR & CEO
 (DIN: 00031794)

The Federal Bank Limited, Regd. Office: P.B.No.103, Federal Towers, Aluva- 683 101